

इंडोर मास्क पहनने के निर्देश व्यापारों के लिए निर्देश




व्यापारों के मालिकों के पास अपने संस्थानों में इंडोर मास्क पहनने के निर्देशों को लागू करने के विकल्प हैं।

क्योंकि इमारत में दाखिल हो रहे किसी भी व्यक्ति की वैक्सीनेशन स्थिति को देखने का कोई आसान ढंग नहीं है, इसलिए King County के Local Health Officer Directive (स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी के दिशा-निर्देशों) में दृढ़तापूर्वक व्यापारों को इंडोर सेटिंग्स में सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क की अनिवार्य हिदायतों को लागू करने के लिए कहा गया है।

कार्यवाही	(DOH या L&I द्वारा आवश्यक)	(King County के निर्देशों द्वारा) दृढ़ता से प्रोत्साहित किया गया	व्यापारों की पसंद
व्यापारों द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषाओं में यह बताते हुए साइन पोस्ट करें कि वैक्सीनेशन न प्राप्त हुए और आधी वैक्सीनेशन प्राप्त हुए लोगों के लिए मास्क अनिवार्य हैं	X	ऐसे साइन पोस्ट करें जो सभी द्वारा मास्क उपयोग करने को प्रोत्साहित करें	
कर्मचारियों के लिए:			
वैक्सीनेशन न प्राप्त हुए और आधी वैक्सीनेशन प्राप्त हुए कर्मचारियों के लिए मास्क के उपयोग को आवश्यक बनाएँ	X		
पूरी तरह से वैक्सीनेशन प्राप्त हुए कर्मचारियों के लिए मास्क के उपयोग को आवश्यक बनाएँ		X	X
मास्क के बिना काम करने के लिए कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन के सबूत को आवश्यक बनाएँ	आवश्यक है यदि व्यापार पूरी तरह से वैक्सीनेशन प्राप्त कर्मचारियों को बिना मास्क पहने काम करने की अनुमति दें		X
ग्राहकों के लिए:			
वैक्सीनेशन न प्राप्त हुए और आधी वैक्सीनेशन प्राप्त हुए ग्राहकों के लिए मास्क के उपयोग को आवश्यक बनाएँ	X		
पूरी तरह से वैक्सीनेशन प्राप्त हुए ग्राहकों के लिए मास्क के उपयोग को आवश्यक बनाएँ		X	X
ग्राहकों से वैक्सीनेशन का सबूत माँगें			X

उपरोक्त चार्ट में लिखा है कि Washington State Department of Health (DOH, स्वास्थ्य विभाग), Washington Department of Labor and Industries (L&I, श्रम एवं उद्योग विभाग) और Public Health (सार्वजनिक स्वास्थ्य) - Seattle & King County द्वारा क्या आवश्यक है और किस चीज़ की सिफारिश की जाती है।



मास्क पहनना अनिवार्य करना अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, और समुदायों की सुरक्षा करने का सबसे सुरक्षित और सबसे साधारण तरीका है।

लेकिन, यदि आप पूरी तरह से वैक्सीनेशन प्राप्त कर्मचारियों और ग्राहकों को बिना मास्क के आने की आज्ञा देते हैं, तो आप मास्क से संबंधित निर्देशों का पालन करते समय निम्न कार्य कर सकते हैं:

1. इमारत में दाखिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वैक्सीनेशन स्थिति की पुष्टि करें।

वैक्सीनेशन दस्तावेजों के स्वीकार्य प्रपत्रों में शामिल हैं:

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC, बिमारी नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र) वैक्सीनेशन कार्ड
- कार्ड की तस्वीर
- किसी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के दस्तावेज
- राज्य प्रतिरोध जानकारी प्रणाली के दस्तावेज




इस सत्यापन प्रणाली के सबूत अनुरोध पर L&I के लिए उपलब्ध होने चाहिए। यदि कारोबार कर्मचारियों को बिना मास्क के काम करने की अनुमति देते हैं तो कर्मचारी वैक्सीनेशन स्थिति की पुष्टि करना L&I की तरफ से अनिवार्य है।

2. ऐसी प्रणाली या प्रक्रिया बनाएँ कि ना वैक्सीनेट हुए कर्मचारी एक मास्क पहनना जारी रख सकते हैं। यह इस तरह प्रतीत हो सकता है:

- इमारत के अंदर वैक्सीनेट-विशेष भाग बनाना, ना वैक्सीनेट हुए भागों से कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ
- दिन में निश्चित समयों को निर्धारित करना जब सभी ग्राहकों के लिए मास्क अनिवार्य होते हैं और पूरी तरह से वैक्सीनेशन प्राप्त ग्राहकों के लिए अन्य समय निर्धारित करना जिन्हें मास्क पहनने की आवश्यकता न हो।

3. जो लोग वैक्सीनेट नहीं हैं या आधे वैक्सीनेट हैं उन्हें आवश्यक रूप से एक मास्क पहनना चाहिए और हर समय शारीरिक दूरी बना के रखनी चाहिए।

अधिक प्रश्नों के लिए, coronavirus@kingcounty.gov से संपर्क करें (उत्तर हिंदी में उपलब्ध हैं।)



Local Health Officer Directive (20 मई, 2021) तब तक प्रभावकारी रहेंगे जब तक King County पुष्टि नहीं करता कि 16 की आयु और इससे अधिक आयु वाले 70% नागरिक King County में पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गए हैं। एक बार यह प्राप्त हो जाए, तो कारोबारों को फिर भी इस दस्तावेज में सूचित DOH और L&I मास्क आवश्यकताओं का अनुसरण करने की आवश्यकता होगी।

[DOH व्यापारों के लिए फेस कवरिंग निर्देशों](#) के बारे में अधिक जानें। (वेबसाइट केवल अंग्रेजी में है)